

Total Pages : 8

**2142/Arts  
Second Year Arts Examination, 2018**

**MATHEMATICS**

**Paper-II**

**(Differential Equations)**

**Time allowed : Three Hours**

**Maximum Marks : 65**

**PART - A ( खण्ड-अ ) [Marks : 20]**

Answer all questions (50 words each).

All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पचास शब्दों से अधिक न हो।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

**PART - B ( खण्ड-ब ) [Marks : 25]**

Answer five questions (250 words each).

Selecting one from each unit. All questions carry equal marks.

प्रत्येक इकाई से एक-एक प्रश्न चुनते हुए, कुल पाँच प्रश्न कीजिए।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों से अधिक न हो।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

**PART - C ( खण्ड-स ) [Marks : 20]**

Answer any two questions (300 words each).

All questions carry equal marks.

कोई दो प्रश्न कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 300 शब्दों से अधिक न हो।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

## PART - A

( खण्ड-अ )

### UNIT - I

( इकाई-I )

1. ( i ) Solve ( हल कीजिए ) :

$$(ydx + xdy)(a - z) + xydz = 0$$

( ii ) Write down the condition of exactness of linear differential equation of order n.

n कोटि के ऐखिक समीकरण की यथार्थता का प्रतिबंध लिखिये।

### UNIT - II

( इकाई-II )

( iii ) Find a part of complementary function :

पूरक फलन का एक भाग ज्ञात कीजिए :

$$(x+2)\frac{d^2y}{dx^2} - (2x+5)\frac{dy}{dx} + 2y = (x+1)e^x$$

( iv ) Find the value of I.

निम्न समीकरण से I का मान ज्ञात कीजिए :

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 4x\frac{dy}{dx} + (4x^2 - 1)y = -3e^{x^2} \sin 2x$$

## **UNIT - III**

### ( इकाई-III )

- ( v ) Find the PDE by the elimination of the constants a and b from  $z = ax + by + ab$ .

$z = ax + by + ab$  से अचर a तथा b का विलोप कर आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए।

- ( vi ) Find complete integrals for the following PD equation.  
निम्न समीकरण के पूर्ण समाकल ज्ञात कीजिए।

$$p^2 + q^2 = 1$$

## **UNIT - IV**

### ( इकाई-IV )

- ( vii ) Solve ( हल कीजिए ) :

$$(D^4 - 2D^3 D' + 2DD'^3 - D'^4)z = 0$$

- ( viii ) Solve ( हल कीजिए ) :

$$r + t + 2s = 0$$

## **UNIT - V**

( इकाई-V )

( ix ) Write down the Legendries differential equation.

लिजान्ड्रे अवकल समीकरण को लिखिये।

( x ) Define power series.

घात श्रेणी को परिभाषित कीजिये।

## **PART - B**

( खण्ड-ब )

### **UNIT - I**

( इकाई-I )

2. Solve ( हल कीजिए ) :

$$\frac{dx}{dt} - 7x + y = 0; \frac{dy}{dt} - 2x - 5y = 0$$

3. Solve ( हल कीजिए ) :

$$\frac{dx}{x^2 - yz} = \frac{dy}{y^2 - zx} = \frac{dz}{z^2 - xy}$$

## **UNIT - II**

( इकाई-II )

4. Solve by method of changing the independent variable.

स्वतन्त्र चर को बदलने वाली विधि से हल कीजिए।

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{2}{x} \frac{dy}{dx} + \frac{a^2}{x^4} y = 0$$

5. Solve by method of undetermined coefficients.

अनिधारित गुणांक विधि से हल कीजिए।

$$(x+2) \frac{d^2y}{dx^2} - (2x+5) \frac{dy}{dx} + 2y = (x+1)e^x$$

## **UNIT - III**

( इकाई-III )

6. Solve (हल कीजिए) :

$$x(y^2 + z)p - y(x^2 + z)q = z(x^2 - y^2)$$

7. Solve (हल कीजिए) :

$$Z = px + qy + c\sqrt{1 + p^2 + q^2}$$

### UNIT - IV

( इकाई-IV )

8. Solve (हल कीजिए) :

$$4r - 4s + t = 16 \log(x + 2y)$$

9. Solve by Monge's method.

मोगे विधि से हल कीजिए।

$$pt + qs = q^3$$

### UNIT - V

( इकाई-V )

10. Find the series solution of the equation near  $x = 0$ .

$x = 0$  के समीप समीकरण का श्रेणी हल कीजिए।

$$\frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + y = 0$$

11. Solve in series :

श्रेणी हल ज्ञात कीजिए :

$$(1 - x^2) y'' - xy' + 4y = 0$$

**PART - C**

( खण्ड-स )

**UNIT - I**

( इकाई-I )

12. Solve (हल कीजिए) :

$$(x^3 - x) \frac{d^3 y}{dx^3} + (8x^2 - 3) \frac{d^2 y}{dx^2} + 14x \frac{dy}{dx} + 4y = \frac{2}{x^3}$$

**UNIT - II**

( इकाई-II )

13. Solve by the method of variation of parameters.

प्राचल विचरण विधि द्वारा हल कीजिए।

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + a^2 y = \sec ax$$

## **UNIT - III**

( इकाई-III )

14. Find the integral surface of the PDE  $(x-y)p + (y-x-z)q = z$

through the circle  $x^2 + y^2 = 1, z = 1$ .

आंशिक अवकल समी.  $(x-y)p + (y-x-z)q = z$  की वृत्त

$x^2 + y^2 = 1, z = 1$  से पृष्ठीय समाकल ज्ञात कीजिए।

## **UNIT - IV**

( इकाई-IV )

15. Solve by Charpit's method :

चारपिट विधि से ह कीजिए :

$$p^2 + q^2 - 2px - 2qy + 2xy = 0$$

## **UNIT - V**

( इकाई-V )

16. Find the solution of Hypergeometric equation

हाईपर ज्यामितीय समीकरण का हल ज्ञात कीजिए।

$$x(1-x)y'' + [c - (a+b+1)x]y' - aby = 0$$